

प्रेषक

सुनील श्री पांथरी
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक
उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी
नैनीताल, उत्तराखण्ड ।

कार्मिक अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 19 मार्च, 2018

विषय:- उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में संकाय अधिकारियों के निःसंवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती किये जाने विषयक ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 15 जून, 2017 एवं पत्र दिनांक 24 जनवरी, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल में संकाय अधिकारियों के निःसंवर्गीय पदों पर तैनाती हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराते हुये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सुचारु संचालन हेतु अकादमी में संयुक्त निदेशक (व्यवहार विज्ञान), संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर) तथा विशेष कार्याधिकारी (शोध) के निःसंवर्गीय पदों पर सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनाती हेतु निर्धारित योग्यतानुसार विभिन्न शासकीय विभागों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सेवारत कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

भवदीय,


(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव
